

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 733]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2022 — अग्रहायण 30, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

सूचना

क्रमांक एफ 11-29/2022/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि के अवसान के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे : —

अनुसूची

स.क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उत्तर बस्तर कांकेर	पखान्जूर	बान्दे	राजस्व निरीक्षक मंडल बान्दे के पटवारी हल्का क्र. 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 के कुल 46 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मंडल छोटेबेटिया के पटवारी हल्का क्र. 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32 एवं 47 के कुल 49 ग्राम. अतः कुल 14 पटवारी हल्का के 95 ग्राम नवीन तहसील “बान्दे” में शामिल होंगे।	उत्तर — तह. पखान्जूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर दक्षिण — महाराष्ट्र राज्य पूर्व — जिला नारायणपुर पश्चिम — महाराष्ट्र राज्य
प्रस्तावित परिवर्तन का कारण:— प्रशासनिक विकेंद्रीकरण					

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग पाण्डेय, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 21st December 2022

NOTICE

No. F 11- 29/2022/7-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tahsil specified in column (3), to create a new Tahsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	North Bastar Kanker	Pakhanjur	Bande	Total 46 villages of Patwari Halka No. 22, 23, 24, 25, 26 and 27 of Revenue Inspector Mandal Bande. Total 49 villages of Patwari Halka No. 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32 and 47 of Revenue Inspector Mandal Chotebethiya. Hence, 95 villages of total 14 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Bande".	North - Tahsil Pakhanjur, Dist. North Bastar Kanker. South - Maharastra State. East - Dist. Narayanpur West - Maharastra State.
Reasons for proposed change - Administrative decentralization					

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANURAG PANDEY, Special Secretary.